



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 5, 2008/फाल्गुन 15, 1929

No. 101]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 5, 2008/PHALGUNA 15, 1929

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2008

सा.का.नि. 165(अ)/आ.व./ईख.—केन्द्रीय सरकार, ईख (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और उसके उप-खण्ड (i) में वर्णित विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, और केन्द्रीय सरकार के ऐसे प्राधिकारियों, निकायों और एजेंसियों जिनसे वह परामर्श करना आवश्यक समझती हो, से परामर्श करने के पश्चात् 9 प्रतिशत चीनी की मूल रिकवरी से सम्बद्ध गन्ने के 80.25 रुपये प्रति क्विंटल की मूल न्यूनतम कीमत जो इस स्तर से अधिक रिकवरी के लिए प्रत्येक 0.1 प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि के लिए 0.90 रुपये के प्रीमियम की शर्त के अधीन हो, के आधार पर एतद्वारा इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कीमत को उस न्यूनतम कीमत के रूप में नियत करती है जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्वात कड़ाह प्रक्रिया वाले चीनी कारखाने के स्वामियों द्वारा या उनके अधिकारियों द्वारा उनके कारखानों के द्वार पर या किसी क्रय केन्द्र पर 30 सितम्बर, 2007 को समाप्त होने वाले चीनी वर्ष 2006-2007 के लिए परित्त ईख के लिए संदेय होगी, किन्तु ऐसा, उक्त आदेश के खण्ड 3-क के अधीन उसके लिए संदेय रिबेट के अधीन रहते हुए किया जाएगा।

अनुसूची

क्र. सं.	प्लांट कोड प्लांट का नाम	कारखाने का नाम	गन्ने का न्यूनतम मूल्य रुपए प्रति क्विंटल में
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	28701 दावांगेरे	दावांगेरे शुगर कं. लि., दावांगेरे, कुक्कावाड़ा, जिला चित्रदुर्ग, कर्नाटक	86.55
2.	26501 पांडवपुर	पांडवपुर सहकारी साखर कारखाना लि., पांडवपुर, जिला मंड्या, कर्नाटक	80.25
3.	57001 बाडागंडी	बिलागी शुगर मिल्स लि., बाडागंडी-587116, तह. बिलागी, बागलकोट, कर्नाटक	97.35
4.	27901 हेमावती	द हेमावती सहकारी साखर कारखाना लि., जिला हसन, कर्नाटक	80.25

[सं. 3-1/2005-एस.पी.-2 (वालयूम-2)]

अविनाश वर्मा, निदेशक

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 5th March, 2008

G.S.R. 165(E)/Ess. Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by clause 3 of Sugarcane (Control) Order, 1966 and having regard to the various factors mentioned in sub-clause (1) thereof, the Central Government, after consultation with such authorities, Bodies and Associations as are considered necessary by it to be consulted and on the basis of the basic minimum price of sugarcane at Rs. 80.25 per quintal linked to a basic recovery of 9% sugar subject to a premium of Re. 0.90 for every 0.1% point increase in the recovery above that level, hereby fixes the price specified in column (4) of the Schedule hereto annexed as the minimum price that shall be payable by the owners of the vacuum pan process sugar factories specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule or their agents for the sugarcane delivered at the gate of the factory or any purchasing centre for the sugar year 2006-2007 ending the 30th September, 2007 subject to the rebates payable therefor under clause 3A of the said Order.

SCHEDULE

Sl. No.	Plant Code Plant Name	Name of the factory	Minimum sugarcane price in Rupees per quintal
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	28701 Davangere	Davangere Sugar Co. Ltd., Davangere, Kukkavada, Distt. Chitradurga, Karnataka	86.55
2.	26501 Pandavapura	Pandavapura Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Pandavapura, Distt. Mandya, Karnataka	80.25
3.	57001 Badagandi	Bilagi Sugar Mills Ltd., Badagandi-587116, Tq. Bilagi, Distt. Bagalkot, Karnataka	97.35
4.	27901 Hemavati	The Hemavathy Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Distt. Hassan, Karnataka	80.25

[No. 3-1/2005-SP-II (Vol. II)]

ABINASH VERMA, Director

आदेश

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2008

सा.का.नि. 166(अ)/आ.व./ईख.—केन्द्रीय सरकार, ईख (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और उसके उप-खण्ड (i) में वर्णित विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, और केन्द्रीय सरकार के ऐसे प्राधिकारियों, निकायों और एसोसिएशनों जिनसे वह परामर्श करना आवश्यक समझती हो, से परामर्श करने के पश्चात् 9 प्रतिशत चीनी की मूल रिकवरी से सम्बद्ध गन्ने के 79.50 रुपये प्रति क्विंटल की मूल न्यूनतम कीमत जो इस स्तर से अधिक रिकवरी के लिए प्रत्येक 0.1 प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि के लिए 0.90 रुपये के प्रीमियम की शर्त के अधीन हो, के आधार पर एतद्वारा इससे उपायद्ध अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कीमत को उस न्यूनतम कीमत के रूप में नियत करती है जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्वात कड़ाह प्रक्रिया वाले चीनी कारखाने के स्वामियों द्वारा या उनके अधिकर्ताओं द्वारा उनके कारखानों के द्वार पर या किसी क्रय केन्द्र पर 30 सितम्बर, 2006 को समाप्त होने वाले चीनी वर्ष 2005-2006 के लिए परित्त ईख के लिए संदेय होगी, किन्तु ऐसा, उक्त आदेश के खण्ड 3-क के अधीन उसके लिए संदेय रिबेट के अधीन रहते हुए किया जाएगा।

अनुसूची

क्र. सं.	प्लांट कोड प्लांट का नाम	कारखाने का नाम	गन्ने का न्यूनतम मूल्य रुपए प्रति क्विंटल में
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	51901 मुधोल	निरानी शुगर लि., कुलाली क्रास, जामखंडी रोड, मुधोल-587313, जिला बागलकोट, कर्नाटक	79.50

[सं. 3-5/2005-एस.पो.-2 (वाल्जूम-2)]

अविनाश वर्मा, निदेशक

ORDER

New Delhi, the 5th March, 2008

G.S.R. 166(E)/Ess. Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by clause 3 of Sugarcane (Control) Order, 1966 and having regard to the various factors mentioned in sub-clause (1) thereof, the Central Government, after consultation with such authorities, Bodies and Associations as are considered necessary by it to be consulted and on the basis of the basic minimum price of sugarcane at Rs. 79.50 per quintal linked to a basic recovery of 9% sugar subject to a premium of Re. 0.90 for every 0.1% point increase in the recovery above that level, hereby fixes the price specified in column (4) of the Schedule hereto annexed as the minimum price that shall be payable by the owners of the vacuum pan process sugar factories specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule or their agents for the sugarcane delivered at the gate of the factory or any purchasing centre for the sugar year 2005-2006 ending the 30th September, 2006 subject to the rebates payable therefor under clause 3A of the said Order.

SCHEDULE

Sl. No.	Plant Code Plant Name	Name of the factory	Minimum sugarcane price in Rupees per quintal
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	51901 Mudhol	Nirani Sugar Ltd., Kulali Cross, Jamkhandi Road, Mudhol-587313, Distt. Bagalkot (Karnataka)	79.50

[No. 3-5/2005-SP-II (Vol. II)]
ABINASH VERMA, Director